



राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी
National Testing Agency

Excellence In Assessment

(उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन)
(An Autonomous Organization under the Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India)

सार्वजनिक नोटिस

20.07.2021

उत्तर प्रदेश सामान्य प्रवेश परीक्षा (UPCET)-2021 "सुधार खिड़की" की शुरुआत

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश सामान्य प्रवेश (UPCET)-2021 हेतु अभ्यर्थियों का पंजीकरण 15 जुलाई 2021 को बंद हो गया है।

आवेदन पत्र भरने के दौरान, अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए किसी भी त्रुटिपूर्ण विवरण में सुधार करने का एक अवसर <https://upcet.nta.nic.in> वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन सुधार खिड़की के माध्यम से 20.07.2021 से 23.07.2021 तक, निःशुल्क दिया जा रहा है।

यथावश्यक सुधार, यदि कोई हो तो, उसे, उक्त अवधि के दौरान, उपर्युक्त साइट के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। सुधार की मांग संबंधी किसी भी बाह्य पत्र, ईमेल या फैंक्स पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऐसे अभ्यर्थी, जो पूर्ववर्ती विवरणों में सुधार करने के इच्छुक हैं, वे उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त साइट के माध्यम से यह कार्य ऑनलाइन कर सकते हैं।

अभ्यर्थियों को, पहले से अपलोड किए गए दस्तावेजों को बदलने की भी अनुमति दी जाएगी, यदि उनसे पहले इस खिड़की के माध्यम से, दस्तावेज अपलोड करने में कोई त्रुटि हुई हो।

अभ्यर्थी उपरोक्त तथ्यों पर ध्यान दें और तदनुसार कार्य करें।

परीक्षा की तिथि का निर्धारण अपने निर्णायक चरण पर है। निर्णय होने के साथ ही इसे, एनटीए की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा।

अभ्यर्थियों को, इससे संबंधित किसी भी तरह की न्यूनतम जानकारी हेतु, समय-समय पर एनटीए की वेबसाइट www.nta.ac.in तथा <https://upcet.nta.nic.in> पर जाकर प्रेषित सूचनाओं को देखने का सुझाव दिया जाता है।

किसी भी तरह के अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए, अभ्यर्थी, एनटीए हेल्प डेस्क से 011 4075 9000 पर संपर्क कर सकते हैं या एनटीए को upcet@nta.ac.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

J. Anandhar

वरिष्ठ निदेशक (परीक्षा)